

Shri S. R. Damani: According to me, the contract was cancelled as the party could not supply the goods. May I know whether the quantity purchased later on was purchased at a higher price or at a lower price?

Shri Dinesh Singh: I am sorry, I could not give the exact value of sulphur purchased thereafter. I have not got it at this stage, but I will be glad to give it to the hon. Member.

श्री अशुभल गवी वार: लिये जी ने सवाल किया था कि उस वक्त क्या यह सच नहीं है कि देश में उसका भाव 45 रुपये के लगभग था और अगर यह सच है तो आपने 55 रुपये में क्यों खरीदा? जवाब में मंत्री जी ने कहा कि हमने जब बाहर से खरीदा उस वक्त उसका रेट ऐसा ही था। मैं जानता चाहता हूँ कि इसका आर्डर देने से पहले क्या आपने यह देख लिया था कि क्या यह देश में ही प्रबलेबल नहीं है, और सरकार के कामों के लिये काफी प्रबलेबल नहीं है? अगर नहीं देखा था तो क्यों नहीं देखा था? फिर जब यहाँ पर इतना सस्ता था आपने महंगा क्यों खरीदा? अपने देश में रेट इतना गिरा हुआ था तो फिर आपने 55 रुपये में क्यों खरीदा? क्यों आपने इसकी इजाजत दी?

[लखे जी ने सोलं कहा था कि]
 उस वक्त क्या यह सच नहीं है कि देश में उसका भाव 45 रुपये के लगभग था और अगर यह सच है तो आपने 55 रुपये में क्यों खरीदा? जवाब में मंत्री जी ने कहा कि हमने जब बाहर से खरीदा उस वक्त उसका रेट ऐसा ही था। मैं जानता चाहता हूँ कि इसका आर्डर देने से पहले क्या आपने यह देख लिया था कि क्या यह देश में ही प्रबलेबल नहीं है, और सरकार के कामों के लिये काफी प्रबलेबल नहीं है? अगर नहीं देखा था तो क्यों नहीं देखा था? फिर जब यहाँ पर इतना सस्ता था आपने महंगा क्यों खरीदा? अपने देश में रेट इतना गिरा हुआ था तो फिर आपने 55 रुपये में क्यों खरीदा? क्यों आपने इसकी इजाजत दी?

अवार्डल नहीं है - अगर नहीं देखा था तो आपने 55 रुपये में क्यों खरीदा? जवाब में मंत्री जी ने कहा कि हमने जब बाहर से खरीदा उस वक्त उसका रेट ऐसा ही था। मैं जानता चाहता हूँ कि इसका आर्डर देने से पहले क्या आपने यह देख लिया था कि क्या यह देश में ही प्रबलेबल नहीं है, और सरकार के कामों के लिये काफी प्रबलेबल नहीं है? अगर नहीं देखा था तो क्यों नहीं देखा था? फिर जब यहाँ पर इतना सस्ता था आपने महंगा क्यों खरीदा? अपने देश में रेट इतना गिरा हुआ था तो फिर आपने 55 रुपये में क्यों खरीदा? क्यों आपने इसकी इजाजत दी?

श्री दिनेश सिंह: कुछ मलत फहमी हो गई है। हमारे देश में सल्फर की बहुत कमी है। हम इसको बहुत बड़ी तादाद में बाहर से आयाते हैं। इस साल लगभग 6 लाख टन सल्फर बाहर से आया। इस धाते यह सवाल नहीं है कि हमारे देश में सस्ता मिल रहा था और हमने नहीं लिया।

Awards to Exporters

+
 *1292. **Shri Yashpal Singh:**
Shri S. C. Samantia:
Shri S. R. Damani:

Will the Minister of Commerce be pleased to state

(a) whether Government are considering a proposal to allow competition among exporters and to give awards; and

(b) if so, the main features of the proposal?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal under consideration is to give a limited number of awards, in the forms of shields, for outstanding export effort. A Committee will be set up to make recommendations for the awards. Exporters with outstanding export performance as well as to other institutions making significant contributions in the field of export promotion will be considered for awards.

श्री यशपाल सिंह : क्या हम इसके कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और उन्हें इनाम में रखा तकसीम किया जाए, क्यों नहीं इस रुपये का सरकार खुद रखती है और खुद ही नियति के काम को हाथ में लेती है ? आप एक्सपोर्ट बढ़िया करेगे तो जनता आपको इनाम देगी और आप हारदिल यकीन बनेगे ।

श्री विनेश सिंह : माननीय सदस्य की मुझ कामनाओं के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ । रुपया वितरण करने का यह प्रश्न नहीं है । शील्ड की बात में कर रहा था ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार बता सकती है कि इस समय हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वह कहा, किस जगह लौक कर रहा है, किस जगह हम लूज कर रहे हैं, कहां घाटे में हम चल रहे हैं ?

श्री विनेश सिंह : यह तो बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रबिन्धन महोदय ।

Shri S. C. Samanta: The Board of Trade recommended that good exporters should be granted suitable Presidential Awards. May I know whether that has been considered and whether those who are given awards will be given financial help also?

Shri Dinesh Singh: I mentioned in my reply that we are setting up a Committee for this. I think, it would be better to wait for a Committee to be set up and to wait for their recommendations.

Shri S. E. Damani: This will be a good inducement for increasing our exports. But what really matters is the competitiveness of our products for increasing our exports. Our exports are falling. May I know what other steps Government is considering to increase our exports apart from this.

Shri Dinesh Singh: I entirely agree with the hon. Member when he says that what really matters is the competitiveness of our products rather than anything else. But human nature being what it is, sometimes an incentive of this kind also helps. Regarding the promotion schemes as such, we have discussed them in the House at a great length. It is very difficult for me to give a short answer on this matter.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : निर्यातकों को पुरस्कार देते वक्त क्या यह भी ध्यान रखेंगे कि जिन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है वे आयात कितन करते हैं ? इसका कारण यह है कि निर्यात से जो उनके द्वारा मुद्रा इधर आती है वह आयात में चली जाती है । इसके साथ साथ क्या आप यह भी बतायेंगे कि जो दूनभ मुद्रा वाले देश हैं उन्ही देशों को निर्यात करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है या धोरों को भी दिया जाता है ?

श्री विनेश सिंह : अभी दिया नहीं गया है कोई पुरस्कार । यह तो प्रबिन्ध में देने की बात चल रही है ।

Shri P. K. Ghosh: Importers make 300 to 400 per cent profit while for exports Government has to give incentives....

Mr. Speaker: You are giving information, not asking for information.

Shri P. K. Ghosh: I am coming to my question.

In view of the fact that our goods cannot compete in the international market, Government has to give incentives to exporters in the form of cash also. Under the circumstances, I would like to know from the hon. Minister whether Government will consider, for the promotion of exports, the question of allowing import licences only to exporters so

that they get incentive and they make good the loss that they incur in exports by way of imports.

Shri Dinesh Singh: It is a complicated question. I shall bear the suggestion of the hon. Member in mind.

श्री राम चरण : जिस तरह से एक्सपोर्ट करने वालों को इनाम देने की स्कीम 19 बना रहे हैं उसी तरह इन्फिरियर क्वालिटी का माल जो सप्लाय करे उन पर उल्टा पेंसल्टी इम्पोज करने का भी प्राप कोई इंतजाम करेंगे ?

श्री बिनोद सिंह : माननीय वक्ताय शायद जानते ही हैं कि स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियलन है तथा और भी कुछ तरीके हैं जिन से प्रगर प्राप अपने निर्यात का एक स्टैंडर्ड रखने की कोशिश करते हैं और सब-स्टैंडर्ड माल के लिए कोशिश करते हैं कि वह देश से बाहर न जाए ।

Shrimati Sushila Bohatri: Has the Government worked out the financial implications of the export promotion schemes and if so, will the Government use this money in the form of giving direct inducement to exports?

Shri Dinesh Singh: Yes; we have worked out the financial implications. We have had to discuss with the Ministry of Finance which has very carefully scrutinised it.

Shri S. S. Kothari: On the one hand, Government proposes to give awards and on the other hand, the Finance Minister has taken away all the tax incentives for exports. How does the hon. Minister explain this contradiction in Government's policy? What are the concrete measures that are intended to promote exports. I just want to know broadly two or three important measures.

Shri Dinesh Singh: If I may say in the very broadest aspect of it, it is

that we hope that the business community, as the hon. Member knows, would try to help the country at this stage by exporting for which we may give them recognition rather than making it a purely money concern and trying to earn money only.

Shri S. S. Kothari: What are the features of export promotion schemes?

Mr. Speaker: Mr. Chatterji.

Shri Krishna Kumar Chatterji: Due to devaluation it was expected that our exports would go up, but now the exports have fallen down. May I know whether the hon. Minister is prepared to consider the desirability of taking over the export trade by stages by the public sector?

Shri Dinesh Singh: I have no objection to taking over the entire trade by stages as the hon. Member has mentioned, but there may be certain difficulties. As the House knows, the Party to which I have the honour to belong, has made some recommendations in this regard and I am very carefully examining them.

Shri Hem Barua: One of the ostensible reasons for devaluation was to promote exports, but unfortunately the exports are not getting intensified. On the other hand, there has been a lamentable decline in exports. In that context, may I know whether Government are conducting any probe into this fact whether deterioration in quality is responsible for this lamentable decline in our exports or there are some other reasons. Will the Government tell us about it?

Shri Dinesh Singh: I have shared my views very freely with the House on this subject and I have said that so far as devaluation is concerned, it was inevitable that there should have been some disturbance immediately after devaluation. But our exports are picking up and we hope that they will reach the targets that we have planned.

Mr. Speaker: Mr. Sonavane.

श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी: The essential part of Mr. Hem Barua's question was not answered.

Hem Barua: About deterioration in quality.

श्री दिनेश सिंह: About the quality, I have said that we have quality control for exports and we go into that.

श्री सोनवणे: In view of our uncompetitive export prices, I want to know what concrete and concerted steps are being taken by the Government to see that the export prices of our goods are reduced and our exports are increased.

श्री दिनेश सिंह: I wish I were in a position to give a simple answer to this very complicated question. We are now on the question of awards and not this.

So far as making the prices competitive in the international market is concerned the question of cost of production comes in, the question of raw material adding to the national prices and so many other questions come in. We are looking into this matter.

श्री दिवाकरराव लाल: मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि आगरा में जो संसार और भारत भर में प्रसिद्ध जूते बनते हैं, उन के निर्यात के लिए किम किस देश के साथ करार किया गया है और अगर यह सिद्ध हो गया कि आगरा के जूते बहुत अच्छे हैं, तो वह क्या इनाम देने की कृपा करेंगे।

श्री दिनेश सिंह: हम कमेटी के सामने सुझाव रखेंगे कि इसका प्रथम सम्मेलन

बिटीय की तरह जूतों के लिए भी एक बोर्ड की जाये, जिस पर जूते की बहुत अच्छी तस्वीर हो।

श्री मधु सिन्घवे: माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि आगरा में जो बहुत अच्छे जूते बनते हैं, वे किन किन देशों को निर्यात हो रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह: अगर मुझे से यह पूछा जाये कि हमारे देश से जूतों का निर्यात किस किस देश को हो रहा है, तो वह तो मैं बता सकता हूँ लेकिन इस वक़्त मैं यह कैसे बता सकता हूँ कि आगरा में बने हुए जूते किस किस देश को भेजे जा रहे हैं ?

श्री प्रेम चन्द वर्मा: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह पुरस्कार इस वर्ष के दौरान किये गये मैक्सिम एम्बेडेंट के निर्यात के आधार पर दिया जायेगा या पिछले वर्ष किये गये निर्यात के आधार पर।

श्री दिनेश सिंह: कमेटी इन सब बातों पर विचार करेगी।

श्री मोक्षह प्रसाद: देश में जितने चाटे के रोजगार हैं, उन को सरकार अपने हाथ में ले रही है और जितने मुनाफ़े के रोजगार हैं, उनको वह बड़े पूंजीपतियों को दे रही है। इस प्रकार जब देश का दिवाला पिटता है, तो सरकार जनता पर नये नये टैक्स लगा कर उस की खून और पसीने की कमाई का ले लेती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

श्री दिनेश सिंह: ऐसी कोशिश तो हम नहीं करते हैं। बल्कि पिछली मर्दाना यह शिकायत थी कि फायदे वाले व्यापार को हम अपने लिए रखे हुए हैं।

श्री जयबल्लभ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन्हीं किन्हीं कर्पोरेटों के निर्यात पर ह्रास्य देने का फैसला किया गया है।

श्री विमल सिंह : सभी पर विचार करेंगे।

Shri S. K. Tapuria: The ever-smiling hon. Minister just now made what he thought was a valuable suggestion to the businessman to export without profits, if need be, for the sake of the country. May I ask him whether, knowing also full well that the prices of our products are very prohibitive, Government will take any steps to at least make raw materials available at international prices so that if the manufacturers or exporters want to export without profit they can do so without loss or at some loss? Could the hon. Minister make raw materials available at international prices?

Shri Dinesh Singh: The hon. Member knows full well that even if we made an attempt to make the raw materials available at international prices, they will not be able to export at international prices, because then they would say that labour is expensive, the cost of production is higher and so on. It is not such an easy question as has been sought to be made out. The hon. Member knows very well that we have discussed this on many occasions, and as I have said in this House, we are discussing commodity-wise with the Export-Import Councils how best we can help them to export.

Expansion of Bhilai Steel Plant

*1293. **Shri Ram Kishan Gupta:** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether it is proposed to expand the Bhilai Steel Plant in the near future; and

(b) if, so, whether the Russian collaboration and import of materials from Russia involving foreign exchange will be necessary for the expansion?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy): (a) Yes, Sir. It is proposed to expand the Bhilai Steel Plant from 2.5 million ingot tonnes capacity to 3.2 million ingot tonnes capacity during the Fourth Plan period.

(b) The expansion is being undertaken with the Russian Collaboration. However, maximum utilisation of indigenous equipment, material and technical skill will be made in the proposed expansion.

Shri Ram Kishan Gupta: What is the total estimate of the expansion programme and out of it how much will be utilised for foreign exchange?

Dr. Chenna Reddy: It is estimated that there will be two phases in which this expansion has to take place. For the first phase, the estimate is Rs. 287.58 millions with a foreign exchange component of Rs. 91.06 millions. The details of the second phase in regard to the different alternatives are still under examination. So, it is not possible to give a specific figure, but it is estimated that the second phase may cost roughly Rs. 580 millions with a foreign exchange component of Rs. 170 millions.

Shri Ram Kishan Gupta: How many Russian experts are working there at present?

Dr. Chenna Reddy: For this particular expansion programme, we are only expecting that about 18 people will be required in the first phase; even they have not all arrived yet.

श्री महाराज सिंह बारवाली : रांची का जो पुराना संस्थान है, जो फौलाद की मिलें बनायेगा, वह अपनी क्षमता से 10 फीसदी काम इस लिये कर रहा है कि उसको